

Ref. No.: SCML/2022-23/91

To,
Listing Operations
BSE Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Date: February 27, 2023

Scrip Code: 511700

Sub: Newspaper publication of Notice of Extra Ordinary General Meeting through VC/OAVM

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12.05.2020 and the provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as the "MCA Circulars"), please find enclosed herewith the copy of newspaper publication of Notice of convening Extra Ordinary General Meeting through VC/OAVM, published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on February 27, 2023.

This is for your information and records.

Thanking You
Yours faithfully,

For **Standard Capital Markets Limited**

Anshita Sharma
Director
Din No. 09706011

Encl: As above

EACH MEETING WILL NEED OVER 200 ROOMS

Hotel rooms sold out as G20 drives up demand

RAJESH KURUP & MITHUN DASGUPTA
Mumbai/Kolkata, February 26

WITH NEARLY 200 meetings scheduled for the G20 summit between now and September, conference rooms in top hotels in major cities and some smaller towns are nearly sold out. However, with the growth in local tourism, business trips, and weddings, the demand for over 200 rooms for every meeting for 2-3 nights may exceed the supply.

According to hoteliers, average room revenues (ARRs) have already returned to pre-Covid levels and may soon surpass them. Analysts believe ARR could get a further boost. If the feared urban consumption slowdown does not materialise, they expect demand to outpace supply growth. According to Jafferis analysts, the sector's ARR is on the rise. "We expect levers such as foreign tourist arrival normalisation and improved corporate rates to fully play out," they said.

Anil Chadha, divisional chief executive, Hotels Business, ITC, told *FE* that the G20 conferences had increased tourism opportunities. He said business was being driven by demand from the leisure, weddings and MICE segments. "Domestic business travel has normalised while inbound foreign travel has also witnessed a pick-up," Chadha said.

KB Kachru, vice-president, Hotels Association of India,

RECORD OCCUPANCY



Hoteliers say average room revenues have already returned to pre-Covid levels and may soon surpass them

The Dec 2022 quarter was a watershed moment for the Indian hotel industry

Besides G20, weddings, product launches, summits, conventions, and expos have all contributed to the growth

believes G20 is an opportunity for the country's hospitality sector to showcase its performance. "We are hosting around 200 meetings at 50 different venues including some in the metros and others in cities like Udaipur, Hampi, and in the Rann of Kutch," Kachru said.

Rajiv Kapoor, general manager, Fairmont Jaipur said business has increased by about 20% compared to last year. "Along with the G20 Summit, weddings, product launches, summits, conventions and expos have also contributed to the growth," Kapoor said.

According to Param Kannampilly, chairman and managing director of The Fern Hotels & Resorts and Concept Hospitality, his company's average room revenues were approaching pre-Covid levels, and ARR has crossed pre-Covid levels in many leisure destinations. "We

have been witnessing a healthy occupancy of around 70-80% across all categories and our resorts are doing extremely well," he said.

Kannampilly, who is also a member of the executive committee of The Federation of Hotel & Restaurant Associations of India (FHRAI), believes that with hundreds of G20 delegates visiting India, tourism potential is high. "If we can match the facilities available overseas, the hospitality industry will undoubtedly benefit," he said.

Sukhbir Singh, general manager, Novotel, Hyderabad Airport told *FE* there was buoyancy across segments, in the sub-market in which his company operates. Moreover, occupancies are well over 70%, and the ARR increase is around 35%. "This directly influences profitability and we believe the trend should sustain," Singh said.

India offers many tailwind opportunities: McKinsey India

PRESS TRUST OF INDIA
Chennai, February 26

COMPANIES MUST CHOOSE growth mindset and constantly evaluate resource allocation to boost growth, McKinsey India said. Growth is the only oxygen that India needs, McKinsey India senior partner Jaidit Brar said at the annual convention of Madras Management Association here.

"The drivers of margin accretive growth are relentless cost and value engineering; quality of revenue, new business models and scale benefits," he said at the event which was held on the theme "India's Century: How to Drive Sustainable, Inclusive Growth?"

Companies must choose growth mindset, constantly evaluate resource allocation, pursue adjacent opportunities, serve global markets, he said.

Ex-Niti Aayog CEO Parameswaran Iyer said the Centre wants to create facilities that would remove the divide between villages and cities and government would be an enabler and not implementer. India is very much on the path to become a developed nation, thanks to its economy, sound macro-economic fundamentals, robust public finance, strong factory growth, he said.



DECKS CLEARED FOR POLLS

Polling officials leave for their respective polling stations after collecting EVMs from a distribution centre a day before the Meghalaya assembly polls, on Sunday

EXPLAINER

LONGER TRADING HOURS: PROS & CONS

The National Stock Exchange's (NSE) recent move to extend the market trading hours has received a mixed response from participants. **Ashley Coutinho** examines the benefits and drawbacks of longer trading hours, and what the broker community believes this would entail, as well as the impact on traders' lives



NSE decides to extend hours

Last week, NSE announced that it would extend the market trading hours for interest rate derivatives to 5 pm, effective from February 23. Earlier, the trading hours were from 9 am to 3:30 pm.

The objective is to converge the trading window of interest rate derivatives with underlying market timings, according to the exchange.

Benefits of longer hours

Extended trading hours could level the playing field for domestic traders versus international ones and may help generate higher revenues for the capital market players. It could also help institutional players to better hedge their portfolios. India has lost out in terms of trading volumes to the Singapore, Dubai and US exchanges, due to its shorter trading hours. NSE wants to regain this share. Less than 4% of Indians invest in the markets at present. Longer hours could draw in people busy with daily 9-6 jobs.

"The Indian stock market reacts to developments in major economies and markets in the US and EU. Thus, markets with longer trading hours can hedge the risk from global information flows more efficiently," says A Balakrishnan, executive director at Geojit Financial Services.

6.5 hrs
TRADING DURATION AT THE NEW YORK STOCK EXCHANGE

7 hrs
SGX (SINGAPORE EXCHANGE)

8.5 hrs
AT BOTH LONDON STOCK EXCHANGE & EURONEXT PARIS

14 hrs
TRADING DURATION AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE

Considered in the past, too

NSE had been mulling over the idea of extending the timings for trading in the futures contracts of its benchmark equity index, Nifty50, to 15 hours — from 9 am to 11:55 pm — for quite some time now. In May 2018, capital markets regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) allowed stock exchanges to trade equity derivatives for a similar duration, aligning with the timings for commodity derivatives. In 2009, the Sebi allowed equity and derivatives markets to stay open from 9 am to 5 pm. The BSE announced it would start trading from 9:45 am. The NSE said it would start from 9 am, and the BSE followed suit.

"Sebi has allowed equity market to operate from 9 am to 5 pm in derivatives, it allowed 9 am-11:55 pm. We have not moved forward. Now, we are working with our members, taking their feedback on what all needs to be done," Ashishkumar Chauhan, CEO, NSE, reportedly said.

Brokers opposing the move

The move has met with opposition from the trading community in the past. Longer trading hours will lead to higher operations, risk hedging and compliance costs. Some experts, however, say that the costs will merely be incremental if the broker is present in both the equity and commodity markets.

Also, brokers will have less time for MTM trade settlements and billing. It also remains to be seen how the settlement and bank obligations will work out in the long run.

How will it impact the life of traders?

Longer hours may have a long-term impact on the mental health of active retail F&O traders.

Tracking P&L for long hours is stressful and can affect life outside trading, said experts. Further, active traders don't make money primarily due to overtrading, and longer hours can accentuate this. According to a recent Sebi study,

90% of individual traders in the equity future and options (F&O) segment incurred net losses.

"While it could boost revenues for the capital markets business in the short term, I'm unsure if retail investors will end up doing better. This could then potentially lead to lower participation and liquidity in the longer run, which will affect

everyone," said Nithin Kamath, founder of Zerodha, in a tweet.

Kamath is also unsure if the net implications for retail participation may not be positive. "While it could boost revenues for the capital markets business in the short term, I'm unsure if retail investors will end up doing better. This could then potentially lead to

lower participation and liquidity in the longer run, which will affect everyone," he tweeted.

But, there are also those who believe the move could be overall positive. Any move by NSE to increase the trading time for the equity segment will help the market participants and retail investors, says Balakrishnan.

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, ALLAHABAD BENCH, PRAYAGRAJ

Pradeep Sharma Vs. Sunshine Tradetower P. Ltd. CP(IB) No. 112/ALD/2022

Notice to: SUNSHINE TRADETOWER PVT. LTD (CIN: U45400UP2011PTC168152)

Whereas a petition under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 has been filed by the Financial Creditors before the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Allahabad Bench at Prayagraj.

The Hon'ble NCLT vide order dated 07.12.2022 has directed for issuance of notice and vide order dated 09.02.2023, has ordered for substituted service by publication. TAKE NOTICE that the above captioned matter will be listed on 21.03.2023. You may either appear in person or through your Authorized Representative and in default of your appearance on the day before mentioned, the case may be heard and decided in your absence.

Mansij Arya
Date: 27.02.2023
Advocate for the Petitioners

STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED

CIN: L74899DL1987PLC027057
Regd. Off: G-17, Krishna Apra, Business Square, Noida, Uttar Pradesh, Pin 201304

E-mail: stancap.delhi@gmail.com
Website: www.stancap.co.in, Phone: 011-47461199

NOTICE OF CONVENING EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of Standard Capital Markets Limited ("the Company") will be held on Monday, March 27, 2023 at 12.30 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) general circular and SEBI Circulars (collectively referred to as "relevant Circulars") to transact the business as set out in the Notice of the EOGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the EOGM, will be sent only by electronic mode to the members whose e-mail address is registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.stancap.co.in and on the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.in.

Manner of registering / updating email addresses by the Members:

- For shares held in physical form - Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services Private Limited at info@skylinert.com
- For shares held in demat form - Please contact your Depository Participant (DP)

Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the EOGM through remote e-voting facility. The facility for e-voting will also be made available at the EOGM and Members attending the EOGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the EOGM. The manner of casting votes through remote e-voting or e-voting during the EOGM, by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses, has been provided in detail in the Notice of the EOGM.

For Standard Capital Markets Limited
Sd/-
Anshita Sharma
Director

Date: 26/02/2023
Place: New Delhi
Din No: 09706011

DEMAND NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act) read with Rule 3(1) of the Security Interest Rules, 2002 (the said Rules), in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL-HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:

If the said Borrower(s) fail to make payment to IIFL-HFL as aforesaid, IIFL-HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Kamal - SCO - 408, GF, Muga Canal, Kamal, Haryana - 132001/ Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana - 122002. Place: Lucknow, Date: 27-02-2023 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED POSSESSION NOTICE

Registered Office: Radhika, 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat, Pin Code: 380009. BRANCH OFFICE: HDB Financial Services Limited, Tejpurja Palace, Above Kajaria Tiles, Near Kulkarni Pull, Beside Zarista Showroom, Sakari Nagar, Faizabad Road, Lucknow 226016

Whereas, The Authorised Officer of HDB Financial Services Limited Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (Sd Of 2002) And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rules 3 Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002 Issued Demand Notice To The Borrower/s As Detailed Hereunder, Calling Upon The Borrowers To Repay The Amount Mentioned In The Said Notice With All Costs, Charges And Expenses Till Actual Date Of Payment Within 60 Days From The Date Of Receipt Of The Same. The Said Borrower/co-borrower Having Failed To Repay The Amount, Notice is Hereby Given To Borrower/co-borrower And The Public In General That The Undersigned In Exercise Of Powers Conferred On It Under Section 13(4) Of The Said Act R/w Rule 8 Of The Said Rules Has Taken Symbolic Possession Of The Property Described Hereunder On The Date Mentioned Alongwith. The Borrowers In Particular And Public In General Are Hereby Cautioned Not To Deal With The Property And Any Dealings With The Property Will Be Subject To The Charge Of Hdb Financial Services Limited For The Amount Specified Herein With Future Interest, Costs And Charges From The Respective Date.

Details Of Borrower/ Co-borrower/guarantors, Loan Account Number, Loan Amount, Details Of Security, Date Of Demand Notice, Claimed Amount, Date Of Possession Are Given Herein Below

1) NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER/CO-BORROWER/GUARANTOR; 2) LOAN ACCOUNT NUMBER; 3) LOAN AMOUNT; 4) DATE OF DEMAND NOTICE; 5) CLAIMED AMOUNT IN INR; 6) DETAILS OF SECURITIES; 7) DATE OF POSSESSION

1.] Name Of The Borrower & Co-borrowers: Indian Cranes Lifters - 0 Badri Nagar Ahir Gali Bhainsa Godown Mathura Mathura-281001 Uttar Pradesh - Chandni Qureshi - 400/7 Ahir Gali Badri Nagar Deeg Gate Mathura Mathura-281001 Uttar Pradesh - Ass Mohmmad - 400/7 Ahir Gali Badri Nagar Deeg Gate Mathura Mathura-281001 Uttar Pradesh - Jahur Khan - 400/7 Ahir Gali Badri Nagar Deeg Gate Mathura Mathura-281001 Uttar Pradesh - Indian Cranes Lifters - 400/7 Ahir Gali Badri Nagar Deeg Gate Mathura Mathura-281001 Uttar Pradesh - Jahur Khan - 458 Ajad Market K Potha Badri Nagar Deeg Gate Mathura Mathura-281001 Uttar Pradesh - Loan Account No. 146800757990706, Loan Amount: Rs.663000/- (rupees Six Lakhs Sixty Three Thousand Only) Sd/- Loan Account Number 146800757990706 To The Tune Of Rs.35000000/- (rupees Thirty Five Lakhs Only) By Loan Account Number 7990706; Demand Notice Date: 17.11.2022 ; Amount Claimed: Rs.3354435 (rupees Thirty Three Lakh Fifty Four Thousand Four Hundred & Thirty Five Only) As Of 15.11.2022 And Future Contractual Interest Till Actual Realization Together With Incidental Expenses, Cost And Charges Etc. ; Details Of Security: All The Piece And Parcel Of Property Bearing House On Water Tax No 547 & New No 146/165, Badri Nagar - Deeg Gate Mathura, Measuring 133.77 Sq. Mtr. Owned By Jahoor Ahmed As Per The Document Sr. No. 5083 Bah No. 1 Jld No 218 Page No. 319-328 Dated 20-12-1995 Register At Sub Registrar Mathura property Boundred As - North-48 Ft., House Gopal Koli, South-48 Ft., Gali & House Exit, East- 30 Ft., House Shareef, West- 30 Ft., Rasta. - 7) Date Of Possession: 24/02/2023

2.] Name Of The Borrower & Co-borrowers: Padamshree Enterprises - Agm 50 Galla Mandi Rudrapur Rudrapur -263153 Uttaranchal - And Also Ward Nop-12 Plot No-81 C A Rudrapur Tehsil- Kichha Rudrapur -263153 -Praveen Kumar Jain - S/o Desh Raj, Jain Agm 50 Galla Mandi Rudrapur Rudrapur -263153 Uttaranchal - Shubham Jain - S/o Praveen Jain Agm 50 Galla Mandi Rudrapur Rudrapur -263153 Uttaranchal - Anshu Jain - S/o Praveen Kumar Jain Agm 50, Galla Mandi Rudrapur Rudrapur -263153 Uttaranchal - Santosh Jain - S/o Praveen Kumar Jain Agm 50 Galla Mandi Rudrapur Rudrapur -263153 Uttaranchal - Padam Shree Ply Decor - Padam Shree Ply Decor A G M 50 Galla Mandi Near Bhaagat Singh Chowk Rudrapur Rudrapur -263153 Uttaranchal ; Loan Account No. 15007783/895727; Loan Amount: Rs.2500000/- (rupees Twenty Five Lakhs Only) By Loan Account Number 15007783 And To The Tune Of Rs.14250000/- (rupees One Crore Forty Two Lakhs Fifty Thousand Only) By Loan Account Number 8395727; Demand Notice Date: 17.11.2022 ; Amount Claimed: Rs.15300071 (rupees One Crore Fifty Three Lakh Eight Hundred & Seventy One Only) As Of 15.11.2022 And Future Contractual Interest Till Actual Realization Together With Incidental Expenses, Cost And Charges Etc. ; Details Of Security: All The Piece And Parcel Of Property Bearing At Ward No.-12, Plot No.-E-81, C.a. Rudrapur, Tehsil- Kichha, Distt.-U.S. Nagar, Total Cover Area Measuring 14.869 Sq.mtr. Owned By Praveen Kumar And Santosh Jain As Per The Regi Sala Deed Bah No. 1 Jld No. 1861, Page No. 259 To 272 Sr. No. 4249 Dated 29 Apr 2014 Registered With Sub Registrar Kichha, property Boundred As :- North-shop Of Narendra Arora, South-shop Of Pawan Kumar Jain, East- Shop Of Hari Singh S, West - Rasta 35' 7) Date Of Possession: 24/02/2023

You The Borrower/ Co-borrowers And Guarantors Are Therefore Called Upon To Make Payment Of The Above Mentioned Demand Amount With Further Interest As Mentioned Hereabove In Full Within 60 Days Of The Notice Failing Which The Undersigned Shall Be Constrained To Take Action Under The Act To Enforce The Above-mentioned Securities.

(Borrower's Attention Is Redirected To Provisions Of Sub-section (8) Of Section 13 Of The Act, In Respect Of Time Available, To Invoke The Secured Assets.) Please Note That As Per Section 13(1) Of The Said Act, You Are Restrained From Transferring The Above-refered Securities By Way Of Sale, Lease Or Otherwise Without Our Consent And Any Non Compliance Of Section 13(1) Of The Act Is Punishable Under Section 29 Of The Said Act. For Any Query Please Contact Mr. Kush Kapoor Phone: 983807150, Vikas A Nand : 09711010384 Place: Lucknow Date: 27/02/2023 Sd/- Authorised Officer, For HDB Financial Services Limited

GOVERNMENT OF TAMIL NADU NAGERCOIL CORPORATION

Roc.No. 13339/2022/H1 TENDER NOTICE Dated: 24.02.2023

The Commissioner Nagercoil Corporation invites on-line Bids for Selection of Service Provider / Agency / Contractor / Company for Implementation of Solid Waste Management Activities in Nagercoil Corporation from the eligible Contractors (two cover system), only before 15.00 Hours on 24.03.2023 For Further details may be downloaded from the following websites <https://tntenders.gov.in>

Package No	Name of Works	Estimate Amount (Rs.in lakhs)	E.M.D (Rs.in lakhs)	Tender document cost	Execution period	Contract class
1	Selection of Service Provider / Agency / Contractor / Company for Implementation of Solid Waste Management Activities in Nagercoil Corporation.	2649.53	26.50	Free of cost down load at website	3 Year	1st Class

(1) The bid document can be downloaded from the website <https://tntenders.gov.in> at free of cost. (2) Important dates: 1. Date and time of Pre bid meeting: 08.03.2023 - 11.00 a.m. 2. Date and time for downloading bid documents: 24.03.2023 - 3.00 p.m. 3. Last date and time for submission of bid document, including online submission 24.03.2023-3.00 p.m. 4. Date and time of opening of the Technical Bid: 24.03.2023-3.30 p.m.

Commissioner Nagercoil Corporation

MUTUAL FUNDS Sahi Hai uti UTI Mutual Fund

Hag, ek behtar zindagi ka

Notice For Declaration Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal

UTI Regular Savings Fund

Name of the Plan	Quantum of IDCW (Gross Distributable Amt.)*		Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on 23/02/23 (per unit)
	%	₹ per unit			
UTI Regular Savings Fund - Regular Plan - Monthly Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW)	0.80%	0.0800	Wednesday 01 March, 2023	₹10.00	15.5502
UTI Regular Savings Fund - Direct Plan - Monthly Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW)					17.0094

*Distribution of above IDCW is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable).

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal options whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each income distribution cum capital withdrawal shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of IDCW to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of IDCW.

Mumbai February 25, 2023 Toll Free No.: 1800 266 1230 www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Grin' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. E-mail: [Asset Management Company Ltd. \(Investment Manager for UTI Mutual Fund\)](mailto:Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund))

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual Fund Distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Fullerton India Credit Company Limited
 कॉर्पोरेट कार्यालय : तलक 6, चौ विंग, सुभाष विमानतल पाक, पार्श्व, मुम्बई-400 076

मॉग सूचना
 वित्तीय आसित्यो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत प्रत्येक श्रेणीका जेटिड कंपनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं नियम 3 के साथ पहिल अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग निम्नलिखित कर्तव्यों को कर्तव्य सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्यक् सूचना (ओ) में उल्लिखित राशि का पुनर्निर्माण करने को कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना (ओ) जारी की थी। अधोहस्ताक्षरी को नार्थिक रूप से दिखता है कि कर्जदार मांग सूचना (ओ) को सेवा की अवधि तक कर रहे हैं अतः सूचना की सेवा नियमों के अनुसार निष्पत्तक तथा प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग सूचना की विषय सामग्री निम्नवत है :

कर्जदार (ए) का नाम : **मौग सूचना की तिथि एवं राशि**
 विक्रम चाला चर्मा, चौक चर्मा, चौके साहू एमपीएम, मिनी चर्मा, 02/02/2023
 खाता सं. 1730013100441290 पर रु. 35,63,612/-

अचल सम्पत्तियों/बोधक सम्पत्तियों का विवरण
 मालमति सं. 0629ए/ए व 17629ए/ए का सम्पूर्ण/ए का 40 वर्ग गज, खारान नं- 375, ग्राम उधनपुर, आदवादी नगर, 4, ईस्ट रोडहास नगर, इलाहाबाद, दिल्ली

कर्जदारों को मांग सूचना (ओ) का अनुपालन करने तथा उसमें यहाँ उल्लिखित मांग राशि को भुगतान की यस्वी की तिथि तक प्रयोग ब्याज, अधिनियम ब्याज, ब्याज प्रभार, लागत तथा व्यय के साथ इस प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर अदा करने का परामर्श दिया जाता है। कर्जदार कर्ण ध्यान दे कि एफआईसीसीएल प्रतिभूत सेनर है और कर्जदार(र) द्वारा ली गयी कृपा सुविधा कर्जदार(र) द्वारा बन्धकत्व प्रतिक्रम आसित(ए) होने के कारण अचल सम्पत्तियों/सम्पत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभूत खण्ड है। यदि कर्जदार निष्ठास सम्य-सीमा में अपने देवतायें चुकाने में असफल रहते हैं तो एफआईसीसीएल विक्री द्वारा अपना अधिनियम तथा उसके तहत नियमों के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपकरण द्वारा शासित किन्तु सीमित नहीं, अनुरण सतित प्रतिभूत आसित(ए) का कब्जा लेने हेतु अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा और भुगतान की यस्वी करेगा। एफआईसीसीएल को विक्री या अनुरण के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व प्रतिभूत आसित(ए) को कुकी तथा अचल सतित करने की भी शक्ति प्राप्त है। प्रतिभूत आसित(ए) की विक्री के अन्तर्कम में एफआईसीसीएल को, यदि बन्धकत्व सम्पत्तियों का मूल्य एफआईसीसीएल के बचका देवताओं को पूर्ण के लिए अप्याय हो तो रोप बचकायों की यस्वी के लिए अलग से वित्तिक कार्यवाही करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानून के तहत एफआईसीसीएल के पास उपलब्ध अन्य समस्त उपचारों के अधिनियम तथा स्वतन्त्र है। प्रतिभूत आसित(ए) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध सम्य-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर तथा अधिनियम की धारा 13(13) आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा कर्जदार एफआईसीसीएल को लिखित पूर्व सहमति के बिना प्रतिभूत आसित(ए) का निराकरण या उससे संव्यवहार अथवा किसी भी प्रतिभूति आसित की विक्री, परदे या अन्य विधि से अनुरण (सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया को छोड़कर) नहीं कर सकेंगा और उपयुक्त का अनुपालन न करना कर्तव्य अधिनियम प्र 26 के तहत एक गंभीर अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार, यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से कानूनीय षण्टी के दौरान किसी भी कानूनीय दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

दिथि : 27.02.2023
 उज्ज्वल - अधिकृत प्राधिकारी
 फुलन्त इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

Fullerton India Credit Company Limited
 कॉर्पोरेट कार्यालय : तलक 6, चौ विंग, सुभाष विमानतल पाक, पार्श्व, मुम्बई-400 076

मॉग सूचना
 वित्तीय आसित्यो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत प्रत्येक श्रेणीका जेटिड कंपनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं नियम 3 के साथ पहिल अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग निम्नलिखित कर्तव्यों को कर्तव्य सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्यक् सूचना (ओ) में उल्लिखित राशि का पुनर्निर्माण करने को कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना (ओ) जारी की थी। अधोहस्ताक्षरी को नार्थिक रूप से दिखता है कि कर्जदार मांग सूचना (ओ) को सेवा की अवधि तक कर रहे हैं अतः सूचना की सेवा नियमों के अनुसार निष्पत्तक तथा प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग सूचना की विषय सामग्री निम्नवत है :

कर्जदार (ए) का नाम : **मौग सूचना की तिथि एवं राशि**
 कृष्णा लिमिटेड मेटलरिया, हरिओम वासुलाल, नूनाना कथासय सिंह, लाल सिंह, गुंठूरु बाबुलाल, नरेश राजगुप्ता, दिव्य सिंह खाता सं. 1910290107565811 तथा 191029010551126 पर रु. 37,88,654/-

अचल सम्पत्तियों/बोधक सम्पत्तियों का विवरण
 प्रतिभूत संपत्ति 1: संपत्ति पता नं.0177, मूंग खारान नगर 224 और 323 का समस्त भाग, मांग क्षेत्रफल 81.93 वर्ग मीटर, गुंठूरु कालीनो, मौजीखार, हलसी और जिला आगरा, उ.प्र. के जिला प्रतिभूत संपत्ति 2: संपत्ति पता नं.खारान संख्या 326 का समस्त भाग, मांग क्षेत्र 78.96 वर्ग मीटर, मौजीखार, हलसी और जिला आगरा, उ.प्र. के जिला

कर्जदारों को मांग सूचना (ओ) का अनुपालन करने तथा उसमें यहाँ उल्लिखित मांग राशि को भुगतान की यस्वी की तिथि तक प्रयोग ब्याज, अधिनियम ब्याज, ब्याज प्रभार, लागत तथा व्यय के साथ इस प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर अदा करने का परामर्श दिया जाता है। कर्जदार कर्ण ध्यान दे कि एफआईसीसीएल प्रतिभूत सेनर है और कर्जदार(र) द्वारा ली गयी कृपा सुविधा कर्जदार(र) द्वारा बन्धकत्व प्रतिक्रम आसित(ए) होने के कारण अचल सम्पत्तियों/सम्पत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभूत खण्ड है। यदि कर्जदार निष्ठास सम्य-सीमा में अपने देवतायें चुकाने में असफल रहते हैं तो एफआईसीसीएल विक्री द्वारा अपना अधिनियम तथा उसके तहत नियमों के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपकरण द्वारा शासित किन्तु सीमित नहीं, अनुरण सतित प्रतिभूत आसित(ए) का कब्जा लेने हेतु अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा और भुगतान की यस्वी करेगा। एफआईसीसीएल को विक्री या अनुरण के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व प्रतिभूत आसित(ए) को कुकी तथा अचल सतित करने की भी शक्ति प्राप्त है। प्रतिभूत आसित(ए) की विक्री के अन्तर्कम में एफआईसीसीएल को, यदि बन्धकत्व सम्पत्तियों का मूल्य एफआईसीसीएल के बचका देवताओं को पूर्ण के लिए अप्याय हो तो रोप बचकायों की यस्वी के लिए अलग से वित्तिक कार्यवाही करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानून के तहत एफआईसीसीएल के पास उपलब्ध अन्य समस्त उपचारों के अधिनियम तथा स्वतन्त्र है। प्रतिभूत आसित(ए) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध सम्य-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर तथा अधिनियम की धारा 13(13) आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा कर्जदार एफआईसीसीएल को लिखित पूर्व सहमति के बिना प्रतिभूत आसित(ए) का निराकरण या उससे संव्यवहार अथवा किसी भी प्रतिभूति आसित की विक्री, परदे या अन्य विधि से अनुरण (सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया को छोड़कर) नहीं कर सकेंगा और उपयुक्त का अनुपालन न करना कर्तव्य अधिनियम प्र 26 के तहत एक गंभीर अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार, यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से कानूनीय षण्टी के दौरान किसी भी कानूनीय दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

दिथि : 27.02.2023
 उज्ज्वल - अधिकृत प्राधिकारी
 फुलन्त इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

pnb punjab national bank
 Together for the better

प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं. 4, सैक्टर - 10 हरियाणा, नई दिल्ली - 110075

दिनांक: 09.01.2023

इरादान चुककानों को घोषणा के लिए समीक्षा संपत्ति का आदेश.
 दिनांक: 13.12.2022 को प्रेषण कार्यालय में की गई कार्यवाही के अनुसार में

मिसर बहादुर समेत लिमिटेड (रु. 10,11,31 करोड़)
सौदा: मुम्बई इंडिया/बिहार - मुम्बई एनपीए की तिथि: 31.12.2013

2015 और 2017 मास्टर स्कुलर संस्था डीबीआर संस्था सीआईडी.सीसी2270:16.003/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 को पूर्व में, इरादान चुककानों को पहचान के लिए समीक्षा संपत्ति का आदेश. अधिनियम के तहत प्रत्येक श्रेणीका जेटिड कंपनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं नियम 3 के साथ पहिल अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग निम्नलिखित कर्तव्यों को कर्तव्य सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्यक् सूचना (ओ) में उल्लिखित राशि का पुनर्निर्माण करने को कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना (ओ) जारी की थी। अधोहस्ताक्षरी को नार्थिक रूप से दिखता है कि कर्जदार मांग सूचना (ओ) को सेवा की अवधि तक कर रहे हैं अतः सूचना की सेवा नियमों के अनुसार निष्पत्तक तथा प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग सूचना की विषय सामग्री निम्नवत है :

1. मैसर्स बहादुर समेत लिमिटेड (कर्जदार)
 2. श्री श्री कृष्ण कम्पन अखाटा (प्रमोटर डायरेक्टर)
 3. श्री अशोक राय (निदेशक)
 4. श्री कृष्ण गोपाल मोहनलाल (निदेशक)
 5. श्री कृष्ण गोपाल मोहनलाल (निदेशक)
 6. मैसर्स एमसी सी सैमल होल्डको का लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर)
 7. मैसर्स एमसी सी इंटर्नैशनल प्रा. लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर)

कर्जदार बचका देवता के माध्यम से, उपरोक्त नामित व्यक्तियों को नोटिस प्राप्त होने से 15 दिनों के भीतर बैंक को एक आवेदनपत्र देने का अवसर दिया गया था कि, यदि वे चाहें तो उन्हें इरादान चुककानों के रूप में मान्यता नहीं दी जायेगा। उक्त कर्जदार बचका देवता के माध्यम से, श्री अशोक, चक्रवर्ती (एडवोकेटर) ने श्री कृष्ण गोपाल मोहनलाल (निदेशक) की ओर से अपना आवेदनपत्र प्र दिनांक 12.10.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया। परिधियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र को ध्यान में रखते हुए, बचकान संपत्ति ने, 08.03.2022 को व्यक्तित्व सुनवाई की अनुमति दी। उक्त व्यक्तित्व सुनवाई में श्री कृष्ण गोपाल मोहनलाल अपने व्यक्तित्व क्षमता में व्यक्तित्व के और अपने माता को प्रस्तुत किया।

निर्देशों पर सभी संबंधी पर विचार करने के बाद, पार्टी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण और व्यक्तित्व सुनवाई के दौरान किए गए विचार-विचार के बाद, पहचान संपत्ति ने 11.07.2022 को अधोनिर्देश अपनी बैठक में कॉर्पोरेट गारंटर तथा मैसर्स एमसी सी सैमल होल्डको प्रा. लिमिटेड और मैसर्स एमसी सी इंटर्नैशनल प्रा. लिमिटेड को इरादान चुक को कार्यवाही में डाल दिया गया है क्योंकि पार्टी डीडी 09.09.2014 से पहले निष्पादित की गई थी। संपत्ति ने आगे का कि कर्जदार और उसके उरक उरक नामित निदेशकों ने बैंक को गुप्तता/पुनर्निर्माण अधिनियम में चुक को और चुक को पटनाओं में शामिल उक्त व्यक्तियों को निम्नलिखित आधार पर इरादान चुककानों के रूप में पहचाने जाने योग्य है -

- भुगतान करने की क्षमता
 - कर्जदार/जमानतियों ने अपने पुनर्निर्माण अधिनियमों को पूरा करने में चुक की है, यहाँ ही उनके पास उक्त व्यक्तियों को पूरा करने की क्षमता रही।
- निदेशक/जमानतों का नाम : **नेट मॉग**
 श्री श्री कृष्ण कम्पन अखाटा : रु. 26.61 करोड़

- कंपनी ने 107.37 करोड़ रुपये के फंड को ड्रावअप किया और 0.64 करोड़ रुपये के फंड का भ्रमन किया।
- कामनि निर्देशकों वाली कंपनीयों के साथ चार-चार संबंधित - इन परिवर्तनों को 25.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो पंजीजी समूह द्वारा साक्ष्य पर संभावित रूप से कम किया गया है।
- मैसर्स महावीर इंडस्ट्रीयुटर्स प्राइवेट लिमिटेड से 111.90 करोड़ रुपये का भुगतान और 88.01 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं थी।
- कंपनी ने लंबी अवधि के उद्देश्यों के लिए अल्पवधि कार्यशील पूंजी निधियों का उपयोग किया है।
- कंपनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान रास-अल-सिमा-मुक यूपीए क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात विमान टैक्स देनर हेतु 16 करोड़ विदेशी शब्दा को शामिल किया है। अधिनियम अधिनियमों के आधार पर यह देना ही है कि उरक विदेशी शब्दा में चूड़े भ्रमने पर असमान वित्तीय विचारण हुआ। इस शब्दा ने वित्त वर्ष 2011-12 और वित्त वर्ष 2012-13 में कंपनी द्वारा प्रोपर्टि एण्ड कुकर सार्वजनिक लक्षण 100% योगदान दिया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में अपने निम्नवत के तीसरे वर्ष में, शाखा ने बुक वैल्यू के लगभग 2.04% के बराबर रकून वैल्यू पर सभी निदेशकों को वेपन दिया है, जिससे एंटी 239,70,752 का नुकसान हुआ है। यह संपत्ति अन्य आमनिर्गत में डमी शाखा खोलेकर कंपनी द्वारा किए गए फंड के संपादित डायवर्सन को इंगित करता है।
- व्यापार प्राप्तियों को 3.49 करोड़ रुपये से घटाकर 0.32 करोड़ रुपये यानी 3.17 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालाँकि, रिपोर्टों की यह समान अधिधि के लिए केनो फोटेस्टेमेंट के अनुसार, व्यापार प्राप्ति केवल 2.80 करोड़ रुपये कम हुए हैं।
- वित्त वर्ष 17-18 के दौरान अतिप्रतिभूत रूप में 41 करोड़ रुपये की कमी आई।
- सहायक कंपनियों की अतिप्रतिभूत मुकू अण्डा जो लंबे समय से ललित था।
- संबंधित पार्टियों को 44.25 करोड़ रुपये के लिए जारी किए गए डिबेंचर बाट में इक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो गए।

तदनुसार पहचान संपत्ति ने 29.07.2022 को तर्कसंगत आदेश जारी किया था। अपने इस आदेश में, संपत्ति ने निर्देश दिया कि उपरोक्त नामित व्यक्ति, यदि वे चाहें तो बैंक के एग्रीड और सौंदर्यी को अस्थापना वाली समीक्षा संपत्ति को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अधिधि के भीतर संपत्ति संपत्ति के आदेश के खिलाफ एक लिखित आवेदनपत्र देने के लिए स्वतंत्र हैं।

ने के इरादान चुककानों की पहचान संपत्ति के आदेश की सर्विस के बचावउ, उक्त आदेश के खिलाफ कर्जदार और उरक नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) से कोई प्रतिनिधित्व का आदेश: उक्त के अधोहस्ताक्षरी एमडी और सीईओ और बैंक के निदेशकों की अस्थापना में समीक्षा संपत्ति ने अपनी बैठक में उपरोक्त तथ्यों और सत्यों पर विचार करने के बाद अधोनिर्देश बैठक में 13.12.2022 को संपत्ति संपत्ति के आदेश के साथ सहमति व्यक्त की और प्रायः कि संख्या 1 से 5 में उल्लिखित उपरोक्त पार्टियाँ इरादान चुक को उपरोक्त घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिना-निर्देशोत्तर प्रविण संख्या डीबीआर संख्या सीआईडी.सीसी2270:16.003/2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसार जारी किए गए मौजूदा बैंक दिशा-निर्देश के अनुसार "इरादान चुककानों" के रूप में घोषित किए जाने के ठोस आधार का उाहर करती हैं और मैसर्स बहादुर समेत लिमिटेड (उपारकत), श्री श्री कृष्ण कम्पन अखाटा (प्रमोटर डायरेक्टर), श्री अनुगत जय, श्री विजय प्रकाश नाना (निदेशक), श्री कृष्ण गोपाल मोहनलाल (निदेशक) को "भुगतान की क्षमता और फंड के डायवर्सन" के कारण "इरादान चुककानों" के रूप घोषित किया।

हस्ता/-
 अतुल कुमार गोपाल अग्रवाल
 (अध्यय निदेशक एवं मुख्य अधिधारी अधिकारी) (निदेशक-सदस्य)
 हस्ता/-
 गौगम गुप्त
 (निदेशक-सदस्य)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
 CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
 (A NAVRATNA UNDERTAKING OF GOVT. OF INDIA)
 कंटेनर कार्यालय एण्ड निवेशक संबंध केंद्र: कोनकॉर्ट भवन, सी-3, मंगेश रोड, अयोडी अपार्टमेंट के सामने, नई दिल्ली-110076

निवृत्ता आमरण सूचना (नि.आ.सू.)
 गैरकार्यकारी नैसर्ग 1007 3आरएम575 उरक, जो निरतिरत नं.:- R/W/MSP/EC-1160/1987/AA P के अनुसार 840 डायल कालि कारिदा के लिए उपयुक्त है, को 160 नव को आवृत्ति के लिए अर्पणित है, जो खण्ड 2.0 में बचाए गए अतिरत मास्टरड को पूरा करने वाले स्वीकार्य वित्तिक आकृष्ट एंटर, स्वीकार्य वित्तिक से दो फोर्टेड सुवी विधिवा प्रकृति के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी ई-बोडिथि अर्पणित की जाती है।

क्र.	वित्तिक संख्या	कंटेनर/व्हील मल्टिप्लायर	मूल्य
1	वित्तिक सं. 1007	CON/TBCLS/Wheel Mouldie-75183R-12023	160 लाख
2	वित्तिक सं. 1007	वित्तिक सं. 1007	160 लाख
3	वित्तिक सं. 1007	वित्तिक सं. 1007	160 लाख
4	वित्तिक सं. 1007	वित्तिक सं. 1007	160 लाख
5	वित्तिक सं. 1007	वित्तिक सं. 1007	160 लाख
6	वित्तिक सं. 1007	वित्तिक सं. 1007	160 लाख
7	वित्तिक सं. 1007	वित्तिक सं. 1007	160 लाख
8	वित्तिक सं. 1007	वित्तिक सं. 1007	160 लाख
9	वित्तिक सं. 1007	वित्तिक सं. 1007	160 लाख

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 4, सैक्टर-10, हरियाणा, नई दिल्ली-110075

वित्तिक सूचना
लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड (परिसमापन में)
 CIN: U40100TG2005PLC045445

इरादानपत्र एक बचकाना संकट, 2016 का अनुभव है। 2016-17-2017-18-2018-19-2019-2020-2021-2022 के दौरान लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड (परिसमापन में) ("कॉर्पोरेट खण्ड") को निर्यात करने के इच्छुक होने के कारण बैंक अधिनियम (परिसमापन प्रक्रिया) नियम, 2016 के अनुच्छेद 32(ए) में (डी) के अधीन ई-निर्देशन में बचकाने में "सीसी है जहाँ है", "सीसी है को कुछ है" "वित्तिक को कुछ मौजूद है" और "बिना वित्तिक के" पर एकलितित्व के आधार पर वित्तिक सतित की जा रही है। वित्तिक के लिए उक्त सतित वित्तिक को प्रकर को कर्तव्य और क्षतिपूर्ति के बिना है।

नोचे सूचना में वर्णित संपत्ति का प्रयोगकर अनिवार्य ई-निर्देशन सूचना प्रेषण, मेसर्स लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड (परिसमापन में) के माध्यम से वेबमास्टर <https://nbd.nest.co.in/vap/login> के माध्यम से करें।

क्र.	ई-निर्देशन में विक्री के लिए उपलब्ध संपत्ति के निम्नलिखित सतित	अंदाजित मूल्य (रु. में)	एग्रीड (रु. में)
1.	जीआईटी प्लॉट 1100 एमएम डायमिटर	46,17,00,000/- +18% जीकेटी	4,61,70,00,000/-
2.	लैंड: एंटी-ऑफिशियल रोड इंटरसेक्शन (16 एकर) 11/3.45 केबी)	1,12,59,50,000/- +18% जीकेटी	11,25,90,00,000/-
3.	लैंड: 765 केबी विषयवर्त सामग्री	3,26,82,00,000/- +18% जीकेटी	32,56,20,00,000/-

यह सूचना आदेशक निदेशन पत्र 3 का 5 वीं ई-निर्देशन में क्रम: 21 विवरण, 2022 और फोको नोटेस दिनांक 08 फरवरी, 2022 के अनुसार अधोनिर्देशन पर जमा किया है, उन्हें केवल ईमेल और हार्ड कॉपी द्वारा एक उपकरण प्रेषित करने को आवश्यक है कि 2वीं ई-निर्देशन सूचना के माध्यम-सतित और नियम 3 और 2002 के अधिनियम के तहत प्रत्येक श्रेणीका जेटिड कंपनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं नियम 3 के साथ पहिल अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग निम्नलिखित कर्तव्यों को कर्तव्य सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्यक् सूचना (ओ) में उल्लिखित राशि का पुनर्निर्माण करने को कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना (ओ) जारी की थी। अधोहस्ताक्षरी को नार्थिक रूप से दिखता है कि कर्जदार मांग सूचना (ओ) को सेवा की अवधि तक कर रहे हैं अतः सूचना की सेवा नियमों के अनुसार निष्पत्तक तथा प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग सूचना की विषय सामग्री निम्नवत है :

कर्जदार (ए) का नाम : **मौग सूचना की तिथि एवं राशि**
 कृष्णा लिमिटेड मेटलरिया, हरिओम वासुलाल, नूनाना कथासय सिंह, लाल सिंह, गुंठूरु बाबुलाल, नरेश राजगुप्ता, दिव्य सिंह खाता सं. 1910290107565811 तथा 191029010551126 पर रु. 37,88,654/-

अचल सम्पत्तियों/बोधक सम्पत्तियों का विवरण
 प्रतिभूत संपत्ति 1: संपत्ति पता नं.0177, मूंग खारान नगर 224 और 323 का समस्त भाग, मांग क्षेत्रफल 81.93 वर्ग मीटर, गुंठूरु कालीनो, मौजीखार, हलसी और जिला आगरा, उ.प्र. के जिला प्रतिभूत संपत्ति 2: संपत्ति पता नं.खारान संख्या 326 का समस्त भाग, मांग क्षेत्र 78.96 वर्ग मीटर, मौजीखार, हलसी और जिला आगरा, उ.प्र. के जिला

कर्जदारों को मांग सूचना (ओ) का अनुपालन करने तथा उसमें यहाँ उल्लिखित मांग राशि को भुगतान की यस्वी की तिथि तक प्रयोग ब्याज, अधिनियम ब्याज, ब्याज प्रभार, लागत तथा व्यय के साथ इस प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर अदा करने का परामर्श दिया जाता है। कर्जदार कर्ण ध्यान दे कि एफआईसीसीएल प्रतिभूत सेनर है और कर्जदार(र) द्वारा ली गयी कृपा सुविधा कर्जदार(र) द्वारा बन्धकत्व प्रतिक्रम आसित(ए) होने के कारण अचल सम्पत्तियों/सम्पत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभूत खण्ड है। यदि कर्जदार निष्ठास सम्य-सीमा में अपने देवतायें चुकाने में असफल रहते हैं तो एफआईसीसीएल विक्री द्वारा अपना अधिनियम तथा उसके तहत नियमों के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपकरण द्वारा शासित किन्तु सीमित नहीं, अनुरण सतित प्रतिभूत आसित(ए) का कब्जा लेने हेतु अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा और भुगतान की यस्वी करेगा। एफआईसीसीएल को विक्री या अनुरण के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व प्रतिभूत आसित(ए) को कुकी तथा अचल सतित करने की भी शक्ति प्राप्त है। प्रतिभूत आसित(ए) की विक्री के अन्तर्कम में एफआईसीसीएल को, यदि बन्धकत्व सम्पत्तियों का मूल्य एफआईसीसीएल के बचका देवताओं को पूर्ण के लिए अप्याय हो तो रोप बचकायों की यस्वी के लिए अलग से वित्तिक कार्यवाही करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानून के तहत एफआईसीसीएल के पास उपलब्ध अन्य समस्त उपचारों के अधिनियम तथा स्वतन्त्र है। प्रतिभूत आसित(ए) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध सम्य-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर तथा अधिनियम की धारा 13(13) आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा कर्जदार एफआईसीसीएल को लिखित पूर्व सहमति के बिना प्रतिभूत आसित(ए) का निराकरण या उससे संव्यवहार अथवा किसी भी प्रतिभूति आसित की विक्री, परदे या अन्य विधि से अनुरण (सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया को छोड़कर) नहीं कर सकेंगा और उपयुक्त का अनुपालन न करना कर्तव्य अधिनियम प्र 26 के तहत एक गंभीर अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार, यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से कानूनीय षण्टी के दौरान किसी भी कानूनीय दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

दिथि : 27.02.2023
 उज्ज्वल - अधिकृत प्राधिकारी
 फुलन्त इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड
 (तात्कालिक एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 103, प्रथम तल, सौरभेश्वरी स्क्वायर, सेना कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ली रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059

कच्चा सूचना
 प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पहिल धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/सह-ऋणधारक सर सती को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः पतुद्वारा ऋणधारक/सह-ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त निम्नावली के नियम 8 के साथ पहिल अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

किसी ऋण पर ऋणधारकों तथा आम जनता को पतुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

कच्चा सूचना में मांग की गई राशि (रु.)

क्र.	पहिल कर्जदार का नाम एवं मांग सूचना तिथि	सम्पत्तियों का विवरण एवं कच्चा की तिथि	कच्चा सूचना में मांग की गई राशि (रु.)
1.	पहिल कर्जदार, 27 जय सिंह, 27 जय सिंह का पता: प्लॉट नं. 76, तारा नगर वी, झोलादार, जयपुर, जयपुर, राजस्थान-302012	ग्राम पीठयारा तथा निवारा, कलवर रोड जयपुर में सम्पत्ति पी. नं. एच-218 स्क्वैम "मनसोदरी" (व्यक्तिगत) पर निर्मित कर्जदारों/हाइड्रस-3 के रूप में वित्तित भवन के मूलत पर सम्पत्ति प्लॉट नं. जी-101, मांग 758.46 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिरसा तथा चौकीडी: पूर्व: डीडी, पहिचन: पी. नं. एच-209, उतर: पी. नं. एच-219, दक्षिण: पी. नं. एच-217	13,72,20,21,000 रु.
2.	मौग सूचना तिथि: 14 जुलाई, 2021 ऋण सं. 00900014918DH(प्र00679590) एवं 40216000003433(प्र00736597)	प्लॉट नं. ए-36, रॉयल सिटी, मंचवा, कलवार रोड, झोलादार, जयपुर, राजस्थान, मांग 1050 वर्ग फीट तथा भूमि मांग 200 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित 12 दोतों का पता: पी. नं. 104, पृथ्वी नगर, नया खेड़ा विद्याभार नगर, जयपुर, जयपुर, राजस्थान-302016	15 नवम्बर, 2022 को रु. 1317101/- (रु. चरखे लख सारुहर हजार एक सौ एक सौ मात्र)
3.	मौग सूचना तिथि: 17 नवम्बर, 2021 ऋण सं. 00900014918DH(प्र00679473)		